

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2014—माघ 23, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. बी-11-6-2013-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-11-6-2013, दिनांक 7 दिसम्बर 2013 द्वारा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा (पायलट) योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2013-14 की अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 4 (क), बिन्दु क्रमांक 4.6 में आंशिक संशोधन एवं जिला श्योपुर, दतिया की सूची में संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा (पायलट) योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2013-14 की अधिसूचना क्रमांक बी-11-7-2013-चौदह-2, दिनांक 16 दिसम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. बिन्दु क्रमांक 4 (क) में दिनांक 31 जनवरी 2013 के स्थान पर दिनांक 31 जनवरी 2014 पढ़ा जावे.
2. बिन्दु क्रमांक 4.6 में मौसम अनुशासन रबी 2011-12 के स्थान पर रबी 2013-14 पढ़ा जाये.
3. बिन्दु क्रमांक 4.6 में बीमा कम्पनी द्वारा मध्यस्थों से अऋणी कृषक के घोषणा पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2012 के स्थान पर 31 दिसम्बर 2013 पढ़ा जावे.

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2013-14 की संशोधित अधिसूचना

जिला दतिया

मौसम	रबी	वर्ष 2013-14			100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची			
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दतिया	दतिया	बरगी	01	गौस	गेहूं सिंचित	-	-	-
			02	पचो, खारा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			03	बदोनकला	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			04	डगराकुआ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			05	हिनौतिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			06	हिदौरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			07	धुधासी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			08	औरेना	गेहूं सिंचित	-	-	-
			09	सिजौरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	कुरथारा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	ईराइ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	रावरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	बरगैन	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			14	बमरौल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	उपराई	गेहूं सिंचित	-	-	-
		बदोनी	16	बडैरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	बैरूका	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	बनौली	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	ढोगरपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			20	बुधेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	गडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	सीतापुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	मुरेरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	महेवा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	सिंहावल	गेहूं सिंचित	-	-	-
		उदगावा	26	बदुमरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	जोनहर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	बदौनरीखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	रिछारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	गौविन्दपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			31	रामसागर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	जिगना	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			33	सतारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	छाटा	गेहूं सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			35	हतलाई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			36	पठारी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			37	सलैयापमार	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			38	पलोथर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			39	उढगवा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			40	नौनेर	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			41	बिलोनी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			42	खदरावनी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			43	राजपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			44	सनौरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			45	गरेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			46	नुनवाहा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			47	खमेरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			48	भगौर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	दतिया		49	दुर्गापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	अगौरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	गधेरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			52	चिटुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			53	बजनी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			54	निछरौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			55	दतिया गिर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			56	सिरौल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			57	कुमहेडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			58	लेटरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			59	मेमई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			60	अकोला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			61	नयागांव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			62	चिरौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			63	सेन्दवारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	राजापुर		64	झडिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			65	रिछारा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			66	रेडा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			67	बहादुरपुर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			68	राधापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			69	भितौरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			70	विदानिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			71	डगरई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			72	लारायता	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			73	राजापुर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			74	इकारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			75	धावरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			76	पथरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			77	बघेवरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			78	गुलमउ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	इमलिया		79	सदवारा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			80	ईमलिया	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			81	बैकर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			82	करखेड़ा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			83	खिरियाघोमू	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			84	छरवारा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			85	बुहारा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			86	कुरैठा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			87	नादर्ई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			88	गुदा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			89	सुजेद	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			90	दिसवार	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			91	वासवाहा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			92	दुरसादा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			93	दरयापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	उनाव		94	ससूती	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			95	कुसौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			96	देवरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			97	रिछार	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			98	सिमारिया	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			99	कमौद	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			100	तरबुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			101	उनाव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			102	गुजररा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			103	परासारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			104	ललुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			105	सैरसा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			106	टेगा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			107	चिरुला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			108	खरारहखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	बसई		109	कमरारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			110	बनवास	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			111	कठीली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			112	हथलव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			113	जैतपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			114	सतलौन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			115	बरदुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			116	सकुली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			117	नयाखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			118	उरदाना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			119	मुडरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			120	मकडारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			121	ठाकुरपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			122	लखनपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			123	बसई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	सेवडा	मगराई	01	रूहेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			02	नीमढाना	-	-	-	राई-सरसों
			03	केसरुआ	-	-	-	राई-सरसों
			04	मेवल	-	-	-	राई-सरसों
			05	बिजौरा	-	-	-	राई-सरसों
			06	गुमानपुरा	-	-	-	राई-सरसों
			07	मगरोल	-	-	-	राई-सरसों
			08	ग्यारा	-	-	-	राई-सरसों
			09	भागवली	-	-	-	राई-सरसों
			10	डिरोलीपुर	-	-	-	राई-सरसों
			11	खमरोली	-	-	-	राई-सरसों
			12	दिसार	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		सेवडा	13	सेंधवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			14	दरियापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			15	नहेला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			16	हेतमपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			17	सिरसा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			18	इंतोरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			19	देभाई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			20	देवपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			21	डावनी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			22	वसतुरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			23	बेरछा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			24	ऐटरेता	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			25	मारसनी खुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			26	खानजापुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			27	अटेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			28	जसावली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		थरेट	29	मोहनपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			30	परसोदाबामन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			31	बदोखारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			32	मालीयापुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			33	भागुआपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			34	रमपुरा खुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			35	मरसेवनी बुजूर्ग	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			36	चीना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			37	रुवाहा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			38	थोडा पहाड	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			39	थारेट	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			40	डिगुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			41	ईगुह	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			42	लौवई बुजुर्ग	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			43	माहरौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	इन्दरगढ़	कुदारी	1	खजौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			2	सेगुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			3	खुडारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			4	खेरौना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			5	परसौडा गुजर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			6	खैरी देवता	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			7	लहरा कला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			8	पिपरुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			9	सेथारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			10	जौनीया	गेहूँ सिंचित	चना	-	-
			11	चकबेना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			12	कुलेथ	गेहूँ सिंचित	चना	-	-
			13	खेरोनाघाट	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			14	बिलासपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			15	पचौखारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			16	भरगुवा	गेहूँ सिंचित	चना	-	-
			17	दोहर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			18	शिकारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			19	डेलुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			20	रारुआ जीवन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		इन्दरगढ़	21	पडरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			22	महोनाजाट	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			23	डमेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			24	इन्दरगढ़	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			25	खाडुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			26	लंच	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			27	टिगरू	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			28	रामगढ़	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			29	बडौल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			30	रामदेवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			31	जिगिनिया	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			32	भारौली	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			33	बारजौरपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			34	उचाड	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			35	भारसुला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			36	सिरौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		धीरपुरा	37	भदौना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			38	सुनारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			39	खजूरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			40	जुझारपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			41	धीरपुरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			42	इकोना	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			43	रारुआराई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			44	चिकुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			45	देगुवा गुजर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			46	उचिया	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			47	काटापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			48	मुरगुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			49	लोधाईपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	बागपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	बागुरदानफिरोज	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
भाण्डेर	गोदान		1	असुली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			2	पारसा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			3	जोरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			4	उडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			5	माहदुवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			6	रखेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			7	पुरा दवोह	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			8	तालगांव	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			9	सयोरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			10	नौगवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			11	अहरोनी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			12	रिछौरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			13	भालका	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			14	गोदन	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			15	सोडा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			16	मैथानापाली	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			17	ताईदोत	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		पण्डोखर	18	कमलापुरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			19	खिरिया फेजुला	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			20	इमलिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			21	भितरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			22	उडैना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			23	वरका	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			24	तैतना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			25	धन पिपरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			26	सालोन बी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			27	पादोखर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			29	सोहन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			30	चांदनी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			31	रामनेर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			32	खिरिया आलम	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			33	विंदवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			34	बिलहेटी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		बदेरा	35	तोरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			36	मिठाना पहुज	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			37	सदका	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			38	लहार हवेली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			39	धनौती	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			40	बडैरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			41	विशालपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			42	कुटोली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			43	सुनारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			44	सिंगपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			45	सोफता	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			46	धरमपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			47	बरचौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			48	चंदरौल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			49	टिगराकलां	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	बागपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	माधौपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		भाण्डेर	52	अजीतपुरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			53	बराना	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			54	बेरछा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			55	भांडेर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			56	तातारपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			57	भारौली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			58	सलोन ए	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			59	दलपतपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			60	खिरिया साहब	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			61	कुलारिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			62	पिपरुआ कला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			63	प्यावल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			64	सरसई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			65	असतोत	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			66	मुसतारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			67	सलेतरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			68	पिछोडना	गेहूँ सिंचित	-	-	-

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2013-14 की संशोधित अधिसूचना

जिला श्योपुर

मौसम	रबी	वर्ष 2013-14		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
श्योपुर	श्योपुर	मानपुर	01	खिरकिया	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			02	ढोढर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			03	हासीलपुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			04	बगदिया	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			05	घीरोली	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			06	सेमल्दा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			07	लाडपुरा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			08	काशीपुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			09	मानपुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			10	जैनी	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			11	सेवापुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			12	जवासा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			13	तलावदा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों	
			14	दातरदाकलां	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
		प्रेमसर मानपुर	15	लहचौडा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			16	जावदेसर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			17	भहरावदा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			18	मेवाडा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			19	चकबमूल्या	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			20	शंकरपुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			21	गुरूनावदा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			22	ददुनी	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों	
			23	बगदुआ	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			24	बनवाडा	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
		प्रेमसर	25	बडौदाराम	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों	
			26	दलारनकलां	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों	
			27	माखनाखेडली	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों	
			28	सोठवा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों	
			29	नागरगांवडा	गेहूं सिंचित	-	-	-	
			श्योपुर	30	सोईकलां	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
				31	ज्वालापुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
				32	नन्दापुर	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
				33	बथांबुजुर्ग	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
				34	ढेगदा	गेहूं सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			35	बगवाज	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			36	श्योपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			37	कलारना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			38	रायपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			39	नागदा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			40	नगदी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		प्रेमसर	41	तिल्लीपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			42	गोहेड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			43	कवरसली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			44	आसीदा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			45	प्रेमसर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			46	अडवाड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			47	पानडी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			48	जलालपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			49	आमल्दा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	ननावद	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	दुबडी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			52	छोटाखेड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			53	बिजरपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		श्योपुर	54	तुलसेफ	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			55	रामगांवडी	-	-	चना	राई-सरसों
			56	कुडहवेली	-	-	चना	राई-सरसों
			57	कनापुर	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
		प्रेमसर	58	पच्चीपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			59	ढोटी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		श्योपुर	60	जेदा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			61	मिठेपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			62	सेमल्दाहवेली	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			63	आजापुरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			64	हलगावडाबुर्ग	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			65	जानपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			66	मयापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			67	फतेहपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	बडौदा	पाण्डोला	01	बाजरली	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			02	पनवाड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			03	बहडावद	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			04	कुहजापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			05	बासोद	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			06	अलापुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			07	उतनवाड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			08	हिरनीखेडा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			09	नारायणपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			10	लुहाड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			11	मलमाल्या	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			12	पाण्डोली	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			13	पाण्डोली	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			14	लूड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			15	किलोजपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			16	तलावडा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			17	ढोडपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			18	नयागांव(ढोडपुर)	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			19	रोडप	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			20	मेखडाहेडी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		बडौदा	21	बाबडीचापा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			22	सलमान्या	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			23	सिरसौद	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			24	बडौदा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			25	इन्द्रपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			26	प्रेमपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			27	ललितपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			28	उद्यौतपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			29	राधापुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			30	कुडायथा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			31	मकडावदकलां	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			32	वोरदादेह	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			33	भिलवाडियां	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			34	माहाराजपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			35	रतोदन	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			36	बागल्दा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			37	हलगांव डाखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			38	नयागांवतेखण्ड	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			39	सुवकश	-	-	-	राई-सरसों
कराहल		गोरस	01	हीरापुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			02	दारेट	-	-	-	राई-सरसों
			03	बुढेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			04	ढोब	-	-	-	-
			05	गढला	-	-	-	राई-सरसों
			06	चितारा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			07	मदनुपर	-	-	-	राई-सरसों
			08	बरगवां	-	-	-	राई-सरसों
			09	जाखदा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			10	गोठरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			11	पिपरानी	-	-	-	-
			12	मेला	-	-	-	राई-सरसों
			13	कलमीककरथा	-	-	-	-
			14	कैलोर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			15	बन्धाली	गेहूँ सिंचित	-	-	-
	कराहल	पहैला	16	आबदा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			17	सरजूपुरा	-	-	-	-
			18	मालीपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		गोरस	19	रीछी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			20	गोररा	-	-	-	-
		कराहल	21	सिलपुरी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			22	पतवाडा	-	-	-	राई-सरसों
			23	लहरोनी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			24	मोरावन	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			25	बासेड	-	-	-	राई-सरसों
			26	सैसईपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			27	मेहरवानी	-	-	-	राई-सरसों
			28	निमानियां	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			29	खिरखिरी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			30	बाढ	-	-	-	राई-सरसों
			31	रानीपुरा	-	-	-	राई-सरसों
			32	कराहल	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			33	पनवाडा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		पहेला	34	पहैला	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			35	वर्धाखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			36	बुखारी	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			37	सुसवाडा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			38	झिरन्या	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			39	लुहाडी	-	-	-	-
			40	करीयादेह	-	-	-	-
			41	चकरामपुरा	-	-	-	-
	विजयपुर	आगरा	01	गहतोनी	-	-	-	राई-सरसों
			02	अरांद	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			03	चेटीखेडा	-	-	-	राई-सरसों
			04	अगरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			05	उमरीकलां	-	-	-	राई-सरसों
			06	कदवई	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			07	मगरदेह	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			08	बैचाई	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			09	पिपरवास	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			10	धामिनी	-	-	-	राई-सरसों
		मसवानी	11	बडौदाकलां	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
		अगरा	12	बेनीपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		विजयपुर	13	आरोदा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
		अगरा	14	पार्वतीबडोदा	-	-	-	-
			15	इकलौद	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		विजयपुर	16	हल्लपुर	-	-	-	-
			17	गढी	-	-	-	-
			18	उपचा	-	-	-	-
			19	मडा	-	-	-	-
			20	खितरमाल	-	-	-	-
			21	लाडपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			22	मेदावली	-	-	-	-
			23	विजयपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			24	सुनवई	-	-	-	-
			25	बांगरोद	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			26	रनावद	-	-	-	-
			27	गोदरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			28	बरदुला	-	-	-	-
			29	दोर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			30	विचपुरी	-	-	-	-
			31	मेवरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			32	काठोद	-	-	-	राई-सरसों
			33	पचनया	-	-	-	-
			34	गोहटा	-	-	-	राई-सरसों
			35	गांवडी	-	-	-	राई-सरसों
			36	गोवर	-	-	-	-
			37	दाउदपुर	-	-	-	राई-सरसों
			38	गोपालपुर	-	-	-	-
		गसवानी	39	सिमरई	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			40	सारंगपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			41	चिमलवानी	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			42	खुरजान	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			43	कढेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			44	सहसराम	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			45	पुरारा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			46	गसवानी	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			47	किसरी	गेहूँ सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			48	नहरखेडा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
वीरपुर		रघुनाथपुर	01	दातेरी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			02	बलवानी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			03	टराखुर्द	-	-	-	राई-सरसों
			04	धनायचा	-	-	-	राई-सरसों
			05	टराकलां	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			06	किन्नपुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			07	सुठारा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			08	असेंदरी	-	-	-	राई-सरसों
			09	सुमरेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			10	हिरामुरा	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			11	नीमच	-	-	-	राई-सरसों
	वीरपुर		12	रीझेटा	-	-	चना	राई-सरसों
			13	बरोली	-	-	-	राई-सरसों
	रघुनाथपुर		14	रघुनाथपुर	-	-	-	राई-सरसों
	वीरपुर		15	धौरीबाबडी	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			16	जमूदी	-	-	-	राई-सरसों
			17	नदीगांव	-	-	-	राई-सरसों
			18	घूघ्रस	-	-	-	राई-सरसों
			19	गोहर	-	-	-	राई-सरसों
			20	जिगरछा	-	-	-	-
			21	नितनवारा	-	-	-	-
			22	पाचो	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
			23	शयारदा	-	-	-	-
			24	बडागांव	-	-	-	राई-सरसों
			25	वीरपुर	-	-	-	-
			26	जाखेरा	-	-	-	राई-सरसों
			27	श्यामपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	राई-सरसों
	रघुनाथपुर		28	मोरेका	-	-	-	-
			29	पुरा	-	-	-	राई-सरसों
			30	ओछा	-	-	-	राई-सरसों